

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 7 नवंबर, 2023

गेहूँ के आटे की बढ़ती कीमतों को स्थिर करने हेतु 'भारत' ब्रांड आटे की बिक्री

भारत सरकार ने 'भारत' ब्रांड आटे (गेहूँ का आटा) की बिक्री 27.50 रुपए प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य (Maximum Retail Price-MRP) के साथ शुरू की है, जो राष्ट्रीय औसत मूल्य 35.93 रुपए प्रति किलोग्राम से कम है।

- यह पहल आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के सरकार के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- 'भारत' ब्रांड आटा **केंद्रीय भंडार, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी वपिणन संघ लिमिटेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited- NAFED)** और **राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (National Cooperative Consumer Federation- NCCF)** सहित विभिन्न आउटलेट्स के माध्यम से उपलब्ध होगा, ताकि 'भारत' ब्रांड आटे तक व्यापक स्तर पर उपभोक्ताओं की पहुँच सुनिश्चित हो सके।
 - NAFED वर्ष 1958 में स्थापित **कृषि उत्पाद खरीद और वपिणन हेतु एक अग्रणी भारतीय सहकारी संगठन** है।
 - NCCF उपभोक्ता सहकारी समितियों हेतु एक शीर्ष संगठन है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
 - NAFED और NCCF दोनों **बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002** के तहत पंजीकृत हैं।
- आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के प्रयासों से न केवल उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है, बल्कि किसानों को भी उनकी उपज हेतु उचित मूल्य सुनिश्चित करने में समर्थन मिला है।

और पढ़ें... [केंद्रीय भंडार](#)

चंद्रमा के नरिमाण में पृथ्वी के गहन साक्ष्य

हाल के शोध से पता चलता है कि **पृथ्वी के गहन आंतरिक भाग** में 4.46 अरब वर्ष से भी अधिक पूर्व हुई एक भीषण टक्कर के साक्ष्य मौजूद हैं, जो **चंद्रमा के नरिमाण** और इस ग्रह के विकास पर प्रकाश डालते हैं।

- एक विशाल प्रभाव के कारण पघिली हुई चट्टान का नरिमाण हुआ जिसने बाद में अंतरिक्ष में एकत्रित होकर चंद्रमा का नरिमाण किया।
 - पृथ्वी के आवरण के भीतर दो महाद्वीप के आकार के ब्लाब (बड़े, सघन क्षेत्र), एक अफ्रीका के नीचे और दूसरा दक्षिण प्रशांत के नीचे, को इसी प्राचीन टक्कर का अवशेष माना जाता है।
- आस-पास के पड्डों की तुलना में ये सघन ब्लाब (blobs) **आदिकालीन पृथ्वी और थिया नामक मंगल** के आकार की वस्तु के बीच टकराव से उत्पन्न हुए होंगे।
 - ऐसा माना जाता है कि थिया का टकराव पृथ्वी से होने के कारण चंद्रमा का नरिमाण हुआ होगा और नचिले मेटल में पदार्थ रह गए होंगे।
- कंप्यूटर सिमुलेशन इस विचार का समर्थन करते हैं कि थिया का अधिकांश भाग पृथ्वी में अवशोषित हो गया था, जिससे ये बूँदें बनीं, जबकि अवशेषित मलबे ने चंद्रमा का नरिमाण किया।
 - ये बूँदें पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 2% हैं, जो पूरे चंद्रमा के द्रव्यमान का दोगुना है।
 - बूँदों में बड़े हुए घनत्व को चंद्रमा की चट्टानों के समान, उनमें मौजूद उच्च लौह सामग्री के लिये ज़िम्मेदार ठहराया जाता है।

और पढ़ें... [पृथ्वी का आंतरिक भाग](#)

कृषि 24/7: AI द्वारा कृषि सूचना नगिरानी में क्रांति

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) ने वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (Wadhvani AI) के सहयोग से कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है, जो **कृषि सूचना नगिरानी एवं विश्लेषण के लिये डज़ाइन किया गया एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित समाधान** है।

- **Google** के समर्थन से इस नवाचार का उद्देश्य कृषि प्रासंगिक सूचनाओं की पहचान व प्रबंधन की प्रक्रिया को बदलना, किसानों के हितों की रक्षा के लिये समय पर सावधान करना तथा **त्वरति कार्रवाई एवं सतत् कृषि विकास को बढ़ावा देना** है।

- कृषि 24/7 कई भाषाओं में समाचार लेखों को स्कैन और उनका अनुवाद करता है। यह समाचार लेखों से आवश्यक जानकारी को ढूँढ निकालता है।

और पढ़ें... [कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृषि](#)

क्रिकेट में टाइम आउट बर्खास्तगी

हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 मैच के दौरान श्रीलंका के बल्लेबाज़ एंजेलो मैथ्यूज का टाइम-आउट होना, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के 146 वर्ष के इतिहास में पहला उदाहरण है।

- ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की खेल शर्तों के अनुसार, आने वाले बल्लेबाज़ को 2 मिनट की सख्त समय-सीमा के भीतर अगली गेंद का सामना करने के लिये तैयार होना चाहिये।
 - हालाँकि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) के कानून 40.1.1 में कहा गया है कि विकेट गरिने या बल्लेबाज़ के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज़ को 3 मिनट के भीतर अगली गेंद का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये। ऐसा करने में वफ़िलता के परिणामस्वरूप 'टाइम आउट' बर्खास्तगी होगी।
- बल्लेबाज़ ने तर्क दिया कि देरी दोषपूर्ण हेलमेट के कारण हुई है, न कि समय बर्बाद करने या लाभ हासिल करने की कोशिश के कारण।
 - हालाँकि नियम अंतिम समय में उपकरण की खराबी को ध्यान में नहीं रखते हैं।

सुरबाया का युद्ध

सुरबाया का युद्ध इंडोनेशियाई राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश भारतीय सेनाओं के बीच लड़ा गया, जो वर्ष 1945 से वर्ष 1949 तक चला।

- युद्ध के समय इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के बाद, इंडोनेशियाई राष्ट्रवादियों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। हालाँकि डचों ने इस घोषणा को मान्यता नहीं दी और अपने उपनिवेश पर फरि से नियंत्रण पाने का प्रयास किया, जिसके कारण युद्ध हुआ।
- युद्ध का परिणाम ब्रिटिश और ब्रिटिश भारतीय सेनाओं की जीत थी, जो भारी युद्ध के बाद सुरबाया शहर पर कब्ज़ा करने में कामयाब रहे।
- इस युद्ध को आज भी इंडोनेशियाई प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है और इंडोनेशिया में इसे प्रत्येक वर्ष 'हीरोज़ डे' के रूप में मनाया जाता है।

और पढ़ें: [भारतीय राष्ट्रीय सेना](#),

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-7-november,-2023>